

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 406] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 1970/कार्तिक 19, 1892
 No. 406] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 1970/KARTIKA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह धलंग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
 as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1970

S.O. 3712.—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

By-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Kerala.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Narayana Kalliyana Krishnan, House No. 428A, Koorkancherry, Nedupuzha, Trichur-7.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri C. Achutha Menon.

Place: Trivandrum.

Date: November 6, 1970.

(Sd.) Dr. R. PRASANNAN,
 Returning Officer & Secy.,
 Legislature Secretariat"

[No. F. 13(2)/70-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

(1809)

विधि मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1970

का०आ० 3712—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा में हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

केरल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि श्री सी० अच्युत मेनन के त्यागपत्र से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए

श्री नारायण कल्याण कृष्णन, मकान नं० 428 ए, कूरक्केरी, नेवुपुज्हा, त्रिवूर-7 सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: त्रिवेन्द्रम

तारीख: नवम्बर, 6, 1970

(ह०)/डा० आर० प्रसन्नन,

रिटर्निंग आफिसर और सचिव,

विधान सचिवालय।

[सं० फा० 13(2)/70-विधा० II]

एन० डी० पी० लाम्बूदिरिपाद, संयुक्त सचिव।